

## अब कंगना रनौत ने आमिर खान को टारगेट करने की कोशिश

By : Editor Published On : 26 Oct, 2020 08:00 AM IST



कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में एक के बाद एक शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं। कंगना ने इस पर रिएक्शन देते हुए खुद की तुलना रानी लक्ष्मीबाई और सावरकर से की है। कंगना ने अपने इस ट्वीट में आमिर खान को टैग करके टारगेट करने की कोशिश भी की है। अपनी बेबाकी के लिए मुश्किलों में फंसती नजर आ रही कंगना रनौत के खिलाफ पहले बांद्रा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया था। अब अंधेरी कोर्ट में कंगना के खिलाफ एक और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मुंबई शहर और मुंबई पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले थे। कंगना ने इन सब मामलों पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट कर खुद की तुलना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से की है।

कंगना ने अपने ट्वीट में ऐक्टर आमिर खान को भी टैग करते हुए टारगेट करने की कोशिश की है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, 'जैसा रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था मेरा घर तोड़ दिया, जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन्टॉलरेंस गैंग से जाकर कोई पूछे, कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इन्टॉलरेंट देश में?' गौरतलब है कि इससे पहले कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि कंगना और उनकी बहन सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काकर सांप्रदायिकता फैला रही हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को समन भेजा है। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को अगले सोमवार और मंगलवार यानी 26 और 27 अक्टूबर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए कहा है। पीएलसी [PLC].

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/अब-कंगना-रनौत-ने-आमिर-खान/>